

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 1979/माघ 25, 1900

No. 43] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 1979/MAGHA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 68(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 173-सीमा-शुल्क, तारीख
7 सितम्बर, 1978 को अधिकांत करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना
लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की

द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं. 23 के अन्तर्गत आने वाली चाय को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 34/फ. सं. 347/18/78-टी. आर. यू.]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 173-Customs, dated the 7th September, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tea, falling under Heading No. 23 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

[No. 34/F. No. 347/18/78-TRU]

CORRIGENDUM

CUSTOMS

G.S.R. 69(E). In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 34(E) (16-Customs) dated the 20th January, 1979 published at page 50 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th January, 1979, in the Table, for the words "in power form" read "in powder form".

[No. 33/F. No. S. 3/79-TRU(Cus)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.